

**Regd. Off. :** 9, D. D. A. Market, Katwaria Sarai, Opposite Qutab Hotel, New Delhi-110 016  
**Works :** 57/1, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad-201 010, Distt. Ghaziabad (U.P.) Ph.: 0120-4333427, 4167628  
**Fax :** 91-120-4167630 **Website :** www.cranexltd.com **Email :** cranex1@yahoo.com, info@cranexltd.com

01-09-2023

To  
The Secretary  
Corporate Relation Department  
Bombay Stock Exchange  
2<sup>nd</sup> Floor, New Trading Wing  
Rotunda Building P. J. Towers  
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Ref. Scrip Code: 522001- CRANEX LIMITED  
ISIN: INE608B01010

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper advertisement – Intimating the Notice of 48<sup>th</sup> AGM**

Dear Sir/Madam,

In pursuant to Regulation 47 (1) (d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copies of newspaper advertisement, published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & Jansatta (Hindi Newspaper) on 01.09.2023 informing about the date of 48<sup>th</sup> e- Annual General Meeting of the Company and to inform shareholders to register their email-ids so as to participate in e-voting and to attend e-Annual General Meeting of the Company.

This is for your information and record.

Thanking You  
**For Cranex Limited**

**Renu**  
**Company Secretary**  
**Membership No.- A29426**



FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023

28

**Form No. 3 [See Regulation -15(1)(a)] /16(3)  
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL  
CHANDIGARH (DRT 2)**

1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh  
(Additional space allotted on 3rd and 4th Floor also)  
Case No. OA/567/2022

Summons under sub-section (4) of section 19 of  
the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the  
Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.  
Exh. No. 17088

**Canara Bank  
VS  
Ram Mehar and Ors**

To,  
**1) Ram Mehar and Ors**  
D/W/S/O- Chuna Ram, Ram Mehar Son of  
Chuna Ram Aged 73 Years Resident of  
House No. 19, Village - Ghasaula Tehsil and  
District, Gurgaon, Haryana - 122101.

**Summons**

Whereas, OA/567/2022 was listed before Hon'ble  
residing Officer/Registrar on 28/03/2023.

Whereas this Hon'ble Tribunal is pleased to issue  
summons/notice on the said application under  
section 19(4) of the Act, (OA) filed against you  
for recovery of debts of Rs. 26,42,576/- (Rupees  
Twenty Six Lakh Forty Two Thousand Five  
hundred Seventy Six only) (application along  
with copies of documents etc. annexed).

According to sub-section (4) of section 19 of  
the Act, you, the defendants are directed as  
follows:-

To show cause within thirty days of the service  
of summons as to why relief prayed for should  
be granted.

To disclose particulars of properties or assets  
other than properties and assets specified by the  
applicant under serial number 3A of the original  
application.

You are restrained from dealing with or  
disposing of secured assets or such other assets  
properties disclosed under serial number  
of the original application, pending hearing  
for disposal of the application for attachment of  
properties.

You shall not transfer by way of sale, lease or  
otherwise, except in the ordinary course of his  
business any of the assets over which security  
interest is created and/or other assets and  
properties specified or disclosed under serial  
number 3A of the original application without the  
approval of the Tribunal.

You shall be liable to account for the sale  
proceeds realised by sale of secured assets or  
properties and properties in the ordinary  
course of business and deposit such sale  
proceeds in the account maintained with the  
financial institutions holding security  
interest over such assets.

You are also directed to file the written statement  
in support thereof furnished to the applicant and  
before Registrar on 13/09/2023 at  
Chandigarh failing which the application shall be  
decided in your absence.

Under my hand and the seal of this  
Tribunal on this date: 11/04/2023.

**Registrar I/c  
DRT-II, Chandigarh**

**Corporate office: M  
167 CST Road, REGION**

Notice is hereby given  
the repayment of principal  
loan accounts have been  
Securitization and Re-  
last known addresses

**Loan Agreement No. 3,  
Name of the Borrower**  
**Loan Agreement No. 3,  
(1) Mitthanal Sukhpt  
(2) Hema Jain (Co)**

All That Piece And  
underneath, super  
site with the rights  
abadi known as Col  
Property, East By: Ro

The above borrower  
outstanding amount  
expiry of said 60 days  
Section 13(8) of the  
any time before the  
shall be taken by us

**Date: 31.08.2023  
Place: Delhi**

**HDFC**  
ry of  
on  
Section  
of the  
114

This has refer  
newspaper by  
of the bid (mer  
NARESH KUM  
has been prep  
circumstances

**Place: DELHI  
Date : 31.08.2023  
Regd**

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM  
**FINANCIAL EXPRESS**

**CRANEX LIMITED**  
CIN: L74899DL1973PLC006503

Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, New Delhi-110016  
Corporate Office: 57/1, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad (U.P.)-201010  
E mail: investors@cranexltd.com, Website: http://www.cranexltd.com  
BSE Script Code: 522001 ISIN: INE608B01010

**NOTICE OF THE 48TH ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the Forty-Eighth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of  
Cranex Limited ('Company') will be held on Saturday, September 30, 2023 at 3.00 p.m. (IST)  
through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) in compliance with applicable  
provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange  
Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read  
with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and  
Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI  
Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. 10/2022  
dated 28.12.2022 and all other relevant circulars issued from time to time ('SEBI Circular') (MCA  
Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars') without the physical presence of the  
Members at the AGM, to transact the business as set out in the AGM notice. Members attending  
the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of  
the Act.

In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for FY 2022-23 will be  
sent in due course only through electronic mode to those Members whose email ids are registered  
with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). Notice of  
AGM will also be available on the Company's website at www.cranexltd.com, websites of the Stock  
Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote  
e-voting facility (before AGM), on all the resolutions set forth in the Notice. The facility of casting  
votes will be provided by NSDL. Facility for e-voting at the AGM will be made available to those  
Members present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the  
resolutions through remote e-voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting  
prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible  
to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-voting, e-voting at the AGM and  
instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the AGM Notice.

Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the  
instructions for remote e-voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members  
who have not registered their email-ids, are requested to register the same, for receiving all  
communications including Annual Report, Notice etc. from the Company electronically as per  
process mentioned below. Upon successful registration of email id, the login ID and password for  
e-voting shall be shared on the member's registered email id:-

- Members holding equity shares of the Company in demat are requested to approach their  
respective DP and follow the process as advised by DP to register their email ids.
- Members holding Equity Shares of the Company in physical are requested to send their Folio  
No., Name, Contact No. email id Copy of PAN (self attested), Copy of Aadhar (Self attested)  
at email id of RTA that is beetalrta@gmail.com
- Alternatively, Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user ID and  
password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice or call 022 -  
4886 7000 and 022 - 2499 7000.

For Cranex Limited

Sd/-

Renu

Company Secretary  
Membership No.- A29426

**Place: Delhi  
Date: 01.09.2023**



**B. L. KASHYAP**  
WE BUILD YOUR WORLD

**B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED**

(CIN: L74899DL1989PLC036148)

Regd. Off.: 409, 4<sup>th</sup> Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025

Ph: 011-40500300, 011-43058345, fax: 011-40500333

Email: info@blkashyap.com; Website: www.blkashyap.com

**INFORMATION REGARDING 34<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that 34<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of B.L. Kashyap and  
Sons Limited ('the Company') is scheduled to be held on Saturday, September 30, 2023 at  
11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) without  
physical presence of the members in compliance with all applicable provisions of the  
Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulation 2015, and Circulars issued  
thereunder, to transact the business items as will be provided in the notice of AGM.

The Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 which, inter-alia,  
contains the Notice of the AGM giving instructions for attending the meeting through  
VC/ OAVM and for e-voting, will be sent only in the electronic mode to those Members  
who have registered their e-mail addresses with their respective Depository  
Participants ('DPs') or the Company or its Registrar & Share Transfer Agents ('RTA')  
viz., Link Intime India Pvt. Ltd.

**Manner of registering/updating e-mail address:**

**HA HOUSING FINANCE**  
Registered Office: JYT HOUSE, 44/45, Road  
Mumbai, Maharashtra-400093, India  
Corporate Office: Unit no 1117 & 1118, 11th Floor,  
Tower, Sector 16, Noida-201301

**PUBLIC NOTICE FOR BRANCH CLOSURE/SH**



सर्व साधारण को सूचित करने के लिए लड़की जिसका नाम को. पता- बी-1757/14-सी, रोहिल्ला, दिल्ली, जोकि दिनांक अपने घर से लापता है। इस संबंध में 16ए, दिनांक 26.08.2023, को पुलिस थाना रोहिल्ला, दिल्ली, में दर्ज की गई स्थानीय पुलिस द्वारा इस लापता लड़की की तलाश करने की कोशिश की गयी है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस लापता लड़की का विवरण इस प्रकार है : लिंग : स्त्री, उम्र : 19 वर्ष, कद : 5'0", रंग : गोरा, चेहरा : गोला, मोटा, आईडी मार्क : माथे के पास सिर के बालों में दो मोहरिया, पहना हुआ गुलाबी प्रिंटेड सूट सलवार, पैरों में स्लीपर। इस गुमशुदा लड़की के बारे में यदि कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित को सूचित करें :

ई-मेल : [cic@cbi.gov.in](mailto:cic@cbi.gov.in)  
फोन : 011-24368638, 24368641  
फैक्स : 011-24368639  
DP/9807/N/2023

थाना प्रमारी  
पुलिस थाना सराय रोहिल्ला, दिल्ली  
फोन नं. : 8750870133  
ई-मेल : [sho-sarairohilla-dl@nic.in](mailto:sho-sarairohilla-dl@nic.in)

### CRANEX LIMITED

CIN: L74899DL1973PLC006503  
Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, New Delhi-110016  
Corporate Office: 57/1, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad (U.P.)-201010  
E mail: [investors@cranexltd.com](mailto:investors@cranexltd.com), Website: <http://www.cranexltd.com>  
BSE Script Code: 522001 ISIN: INE608B01010

#### NOTICE OF THE 48TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Forty-Eighth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Cranex Limited ('Company') will be held on Saturday, September 30, 2023 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM') in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022 and all other relevant circulars issued from time to time ('SEBI Circular') (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars') without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business as set out in the AGM notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for FY 2022-23 will be sent in due course only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). Notice of AGM will also be available on the Company's website at [www.cranexltd.com](http://www.cranexltd.com), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting facility (before AGM), on all the resolutions set forth in the Notice. The facility of casting votes will be provided by NSDL. Facility for e-voting at the AGM will be made available to those Members present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-voting, e-voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the AGM Notice.

Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members who have not registered their email-ids, are requested to register the same, for receiving all communications including Annual Report, Notice etc. form the Company electronically as per process mentioned below. Upon successful registration of email id, the login ID and password for e-voting shall be shared on the member's registered email id:-

- Members holding equity shares of the Company in demat are requested to approach their respective DP and follow the process as advised by DP to register their email ids.
- Members holding Equity Shares of the Company in physical are requested to send their Folio No., Name, Contact No. email id Copy of PAN (self attested), Copy of Aadhar (Self attested) at email id of RTA that is [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com)
- Alternatively, Members may send a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) for procuring user ID and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice or call 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

For Cranex Limited  
Sd/-  
Renu  
Company Secretary  
Membership No.- A29426

Place: Delhi  
Date: 01.09.2023

## कॉरिअर पॉइंट लिमिटेड

स्टर्ब ऑफिस: ग्राम टेंगोरी, बानूर, मोहाली (पंजाब) 140601  
ऑफिस: सीपी टॉवर-1, रोड नं.1, आईपीआई, कोटा (राज.) 324005  
फोन: 080-4497, फोन: 080-47250011, 90575-32030  
ईमेल: [investors@cpil.in](mailto:investors@cpil.in)

वैयक्तिक के संबंध में सूचना

प्रपत्र सं. - 03 [विनियम-15 (1) (क) / 16 (3) देखें]  
क्रान वसुली न्यायाधिकरण वंडीगट (डीआरए 2)  
प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, वंडीगट  
(तृतीय एवं तृतीय तल पर भी अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हैं)

बाद सं. : 0A/1139/2020

न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क)  
विनियम की धारा 19(4) के तहत सम्मन  
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

बनाम  
जतिन्दर कपूर

लिमिटेड  
मेट्रो स्टेशन मेवला महाराजपुर दिल्ली  
दिल्ली हाउस, बाराखम्बा रोड कर्नाट प्ले

सेवा में,  
(1) नितिन कुमार के समक्ष 16-08-2023

फ्लैट नं ई-601 से  
201016, यूपी पैन नं. की के लिए आपके विरुद्ध  
अन्य पता: श्री सुहिल कुमार आवेदन पर सम्मन  
एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन संलग्न है।  
नगर यूपी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश निर्देश भी है।  
अन्य पता: नितिन कुमार चौहान पुत्र  
सेक्टर 77 नोएडा - 201301 यूपी गौतम बुद्ध नगर

(2) सुशील कुमार चौहान, निवासी फ्लैट नं  
नोएडा-201301, उ.प्र. पैन नं. ADDPK3439R

अन्य पता: सुशील कुमार चौहान, C/O  
दुग्गडा, पौड़ी गढ़वाल - 246149, उत्तराखण्ड

जबकि, ओए/131/2020 माननीय पीठ अधिका  
किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. 4711266,  
किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा  
जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि)  
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत  
है :-

- सम्मन की तारीख के तीस दिन के भीतर कारण
- मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदनक  
सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत व
- आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन  
तक, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन  
आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान
- आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभू  
के क्रमांक 3क के तहत आवेदनक द्वारा विनिर्दि  
अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार र  
न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं क
- आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभू  
बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रख  
हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनु  
आपको लिखित बयान दाखिल करने, उ  
24-11-2023 को पूर्वा. 10.30 बजे रजि  
जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई  
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की

### NUPUR REC

Formerly known as NUP  
Regd. Office: Plot No. 5, G/I  
New Mandoli In  
CIN: L37100DL2019PLC344  
E-mail ID: [compliance@nupurrec.com](mailto:compliance@nupurrec.com)

#### NOTICE OF 05<sup>TH</sup> ANNUAL E-VOTING

Notice is hereby given that the 05<sup>th</sup> Annual Recyclers Limited ('Company') will be held through Video Conferencing ('VC') (hereinafter referred to as 'VC') as set out in the Notice of the AGM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and Rules framed thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars') and Circulars issued from time to time ('SEBI Circulars') without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business as set out in the AGM notice. Members attending the AGM through VC shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.